

# Rajasthali Law Institute

Prelims test series

## Indian Contract Act-2

**1)When the consent is caused by misrepresentation, the contract under section 19 is?/जब सहमति दुर्यर्पदशन के कारण होती है, तो धारा 19 के तहत अनुबंध क्या है?**

- (a) valid/वैध
- (b) void/शून्य
- (c) voidable/शून्यकरणीय
- (d) illegal./अवैध।

**2)Where both the parties are under mistake as to matter of fact, the contract under section 20 is ?/ जहां तथ्य के मामले में दोनों पक्ष भूल पर हों, वहां धारा 20 के तहत अनुबंध होता है**

- (a) voidable/शून्यकरणीय
- (b) void/शून्य
- (c) valid/वैध
- (d) illegal./अवैध।

**3)Considerations & objects are unlawful where it is/प्रतिफल और उद्देश्य विधिविरुद्ध हैं जहां?**

- (a) forbidden by law or defeat the provision of any law/कानून द्वारा निषिद्ध है या किसी कानून के प्रावधान को विफल करता है
- (b) which is fraudulent/जो धोखाधड़ी है
- (c) which is immoral & against the public policy/जो अनैतिक और लोक-नीति के विरुद्ध है
- (d) all the above/उपरोक्त सभी।

**4) An agreement in restraint of trade is valid under section 27 if relates to/ व्यापार को बाधित करने वाला करार धारा 27 के तहत वैध है यदि संबंधित है**

- (a) sale of goodwill/ख्याति की बिक्री
- (b) mutual adjustment/आपसी समायोजन
- (c) business contingency/व्यावसायिक आकस्मिकता
- (d) none of the above/उपरोक्त में से कोई नहीं।

**5)A person is deemed to be in a position to dominate the will of another by undue influence if the mental capacity is affected temporarily or permanently by/ एक व्यक्ति को अनुचित प्रभाव से दूसरे की इच्छा पर श्रेष्ठ होने की स्थिति में माना जाता है यदि मानसिक क्षमता अस्थायी या स्थायी रूप से प्रभावित होती है**

- (a) reason of age/उम्र का कारण
- (b) reason of illness/बीमारी का कारण
- (c) mental or bodily distress/मानसिक या शारीरिक कष्ट
- (d) all the above./उपरोक्त सभी।

**6)Inadequacy of consideration is relevant in determining the question of/प्रश्न के निर्धारण में प्रतिफल की अपर्याप्तता सुसंगत है?**

- (a) fraud/ कपट
- (b) misrepresentation/"दुव्यर्पदशन
- (c) undue influence/"असम्यक् असर
- (d) free consent/ स्वतंत्र सहमति

**7)Where one of the joint promisors makes a default in contribution of performance /जहां संयुक्त वाचांदताओं में से एक पालन के योगदान में चूक करता है**

- (a) the other joint promisors have no right against the defaulter/अन्य संयुक्त वाचांदताओं के पास व्यतिक्रमी के खिलाफ कोई अधिकार नहीं है
- (b) have to bear the loss in equal share/हानि को बराबर हिस्से में सहन करना होगा

- (c) not supposed to bear the loss/नुकसान सहन नहीं करना चाहिए  
(d) the contract becomes void to that extent./अनुबंध उस सीमा तक शून्य हो जाता है।

**8)A contingent contract/ एक समाश्रित संविदा ?**

- (a) is void/शून्य है  
(b) never becomes void/कभी शून्य नहीं होता  
(c) becomes void when the event becomes impossible/जब घटना असंभव हो जाती है तो शून्य हो जाती है  
(d) is voidable./शून्यकरणीय है।

**9)A contingent agreement based impossible event under section 36 on an/ धारा 36 के तहत असंभव घटना पर आधारित एक समाश्रित करार ?**

- (a) is void/ शून्य है  
(b) is void till the impossibility is known/असंभवता ज्ञात होने तक शून्य है  
(c) becomes void on the knowledge of impossibility/असंभवता के ज्ञान पर शून्य हो जाता है  
(d) all the above./उपरोक्त सभी।

**10)Two persons have the capacity to contract under section 11/दो व्यक्तियों के पास धारा 11 के तहत संविदा करने की क्षमता है**

- (a) if both are major/यदि दोनों वयस्क हैं  
(b) if both are not of unsound mind/यदि दोनों विकृत चित्त नहीं हैं  
(c) if none is declared unqualified to contract/यदि किसी को भी संविदा के लिए अयोग्य घोषित नहीं किया गया है  
(d) all are correct./सभी सही हैं।

**11) भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 कब लागू हुआ / When the Indian Contract Act, 1872 came into force-**

- (a) 25 अप्रैल, 1872 को / On 25th April, 1872  
(b) 1 सितम्बर, 1872 को / On 1st September, 1872  
(c) 1 जुलाई, 1872 को / On 1st July, 1872

(d) 24 मार्च, 1872 को / On 24 March, 1872

**12) भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 में कितनी धारायें व कितने अध्याय हैं - / How many sections and chapters are there in the Indian Contract Act, 1872 -**

- (a) 5 अध्याय एवं 231 धारायें / 5 chapters and 231 sections
- (b) 10 अध्याय एवं 231 धारायें / 10 chapters and 231 sections
- (c) 10 अध्याय एवं 238 धारायें / 10 chapters and 238 sections
- (d) 8 अध्याय एवं 232 धारायें / 8 chapters and 232 sections

**13) भारतीय संविदा अधिनियम, में है / In the Indian Contract Act, -**

- (a) संविदा विधि की पूर्ण संहिता / Complete Code of Contract Law
- (b) मात्र संविदा विधि के सामान्य सिद्धांत / General principles of contract law only
- (c) संविदा विधि के सामान्य और तीन विनिर्दिष्ट संविदाएं / General and three specific contracts of contract law
- (d) संविदा विधि के सामान्य सिद्धांत और अन्य विनिर्दिष्ट संविदाएं / General principles of contract law and other specific contracts

**14) संविदा विधि का प्रभाव है / The effect of contract law is -**

- (a) भूतलक्षी / Retrospective
- (b) भूतलक्षी नहीं / Not retrospective
- (c) (a) एवं (b) दोनों / Both (a) and (b)
- (d) उपरोक्त में से कोई नहीं / None of the above

**15) भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 का अधिनियम संख्या है - / The Act number of the Indian Contract Act, 1872 is -**

- (a) 1872 का अधिनियम संख्या 5 / Act No. 5 of 1872
- (b) 1872 का अधिनियम संख्या 9 / Act No. 9 of 1872
- (c) 1872 का अधिनियम संख्या 4 / Act No. 4 of 1872
- (d) उपरोक्त में से कोई नहीं / None of the above

**16)निम्न में से किस धारा में 'प्रतिफल' को परिभाषित किया गया है? - / In which of the following section 'Consideration' is defined?**

- (a) धारा 2 (क) / Section 2(a)
- (b) धारा 2 (च) / Section 2(f)
- (c) धारा 2 (घ) / Section 2(d)
- (d) धारा 2 (ज) / Section 2(h)

**17)भारतीय संविदा अधिनियम 1872 का "निर्वचन खण्ड" निम्न में उपबंधित है/ "The Interpretation Clause" of the Indian Contract Act 1872 is provided in the following -**

- (a) धारा 1 / Section 1
- (b) धारा 2 / Section 2
- (c) धारा 3 / Section 3
- (d) धारा 5 / Section 5

**18)A, B को एक प्रस्ताव करता है। B द्वारा प्रस्ताव स्वीकार लेने पर / A makes an proposal to B. On acceptance of the proposal by B -**

- (a) B की स्वीकृति वचन हो जाती है/B's acceptance becomes a promise
- (b) A का प्रस्ताव वचन हो जाता है/A's proposal becomes a promise
- (c) A का प्रस्ताव और B की स्वीकृति दोनों वचन बन जाते हैं/ A's proposal and B's acceptance both become promises
- (d) A का प्रस्ताव वचन हो जाता है यदि B के द्वारा प्रतिफल दिया गया है, अन्यथा नहीं/A's proposal becomes a promise if the consideration is given by B. otherwise not.

**19). भारतीय संविदा अधिनियम की कौन-सी धारा में वचनदाता एवं वचनगृहिता को परिभाषित किया गया है / Promisor and promisee is defined in which section of the Indian Contract Act,? -**

- (a) धारा 2 (क) / Section 2(a)
- (b) धारा 2 (ग) / Section 2(c)
- (c) धारा 2 (ख) / Section 2(b)
- (d) धारा 2 (च) / Section 2(f)

**20)विधिमान्य संविदा में होना चाहिए- / A valid contract should contain-**

- (a) प्रतिफल / Consideration
- (b) पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति / Free consent of the parties
- (c) विधिक उद्देश्य / Lawful object
- (d) ये सभी / All these

**21)निम्नलिखित में से प्रस्थापना की कोटि में आता है। / Which of the following comes under the category of proposal?**

- (a) विक्रय के बारे में समाचार पत्र में विज्ञापन / Advertisement in newspaper about sale
- (b) दुकानदार द्वारा खिड़की में माल का उस पर कीमत अंकित करके प्रदर्शन / Display of goods in a window by a shopkeeper with a price marked on it
- (c) एक संगीत सभा के लिए विज्ञापन / Advertisement for a concert
- (d) जनता को पुरस्कार की घोषणा / Announcement of the award to the public

**22)निविदा आमंत्रित करने के लिए सूचना पत्र में प्रकाशित सूचना है- / The information published in the news letter for inviting tender is-**

- (a) वार्ता के लिए आमंत्रण / Invitation to talk
- (b) प्रस्थापना के लिए आमंत्रण / Invitation to proposal
- (c) प्रस्थापना / Introduction
- (d) वचन / Promise

**23)जिस व्यक्ति के द्वारा प्रस्थापना की जाती है उसे कहते हैं- / The person by whom the proposal is made is called-**

- (a) वचनदाता / promisor
- (b) ठेकेदार / Contractor
- (c) विक्रेता / Seller
- (d) वचनगृहीता / Promisee

Estd. 2008

**24) वह करार जो विधितः प्रवर्तनीय न हो / An agreement not enforceable by law is**

- (a) शून्य है / Void
- (b) शून्यकरणीय है / Voidable
- (c) संविदा है / Is a contract
- (d) मान्य / valid

**25) हर एक वचन और ऐसे वचनों का हर एक संवर्ग, जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल हो, कहलाता है - / Every promise and every set of promises, forming the consideration for each other, is-**

- (a) करार / Agreement
- (b) प्रस्ताव / Proposal
- (c) स्वीकृति / Acceptance
- (d) शून्य / Void

**26) वह करार, जो उसके पक्षकारों में से एक या अधिक के विकल्प पर तो विधि द्वारा प्रवर्तनीय हो, किंतु अन्य पक्षकार या पक्षकारों के विकल्प पर नहीं, कहलाता है - / An agreement which is enforceable by law at the option of one or more of the parties thereto, but not at the option of the other or others, is ?**

- (a) शून्य संविदा / void contract
- (b) शून्यकरणीय संविदा / Voidable contract
- (c) (a) एवं (b) दोनों / (a) and (b) both
- (d) वैध / legal

**27) सामान्य प्रस्ताव पर प्रसिद्ध वाद है - / The famous case on general proposal is -**

- (a) लालमन शुकला बनाम गौरीदत्त / Lalman Shukla vs. Gauri Dutt
- (b) कार्लिल बनाम कार्बोलिक स्मोल बॉल कं. / Carlill v. Carbolic Smoke Ball Co.
- (c) उपरोक्त दोनों / Both of the above

(d) नाज फाउंडेशन बनाम एन.सी.टी. राज्य दिल्ली / Naz Foundation v Govt of NCT of Delhi

**28). निम्न में से कौन-से कथन सही हैं- / Which of the following statements are correct-**

- (a) केवल कार्य ही वचन या प्रतिफल है। / Only the act is the promise or the consideration.
- (b) केवल प्रविरति ही वचन का प्रतिफल हो सकता है / Only omission can be the consideration for the promise
- (c) केवल वचन ही प्रतिफल हो सकता है। / Only the promise can be the consideration.
- (d) कार्य, प्रविरति या वचन में से कोई भी प्रतिफल हो सकता है। / The consideration may be either an act, an omission of LAW promise.

**29) प्रतिफल हो सकता है / The consideration can be -**

- (a) केवल भविष्य में / only in future
- (b) केवल वर्तमान में / only at present
- (c) केवल भूतकाल में / only in the past
- (d) भूतकाल, वर्तमान एवं भविष्य में / in past, present and future

**30) राम 10,000 कीमत पर श्याम को गृह बेचने की पत्र द्वारा प्रस्थापना करता है; प्रस्थापना**

**की संसूचना तब संपूर्ण हो जाती है / Ram proposals by letter to sell the house to Shyam for Rs.10,000; The communication of the proposal is complete when -**

- (a) जब राम द्वारा कीमत निर्धारित की जाती है। / When the price is fixed by
- (b) जब राम द्वारा पत्र भेजा जाता है। / When the letter is sent by Ram.
- (c) जब श्याम को पत्र प्राप्त होता है। / When Shyam receives the letter.
- (d) जब राम को पत्र प्राप्त होता है। / When Ram receives the letter.

**31) 'अमन' अपना गृह 'दीपक' को बेचने का प्रस्थापना डाक से भेजे गए एक पत्र द्वारा करता है। 'दीपक' प्रस्थापना को डाक से भेजे गए पत्र द्वारा प्रतिगृहीत करता**



है। 'अमन' अपनी प्रस्थापना को प्रतिसंहत कर सकेगा / 'Aman' proposes to sell his house to 'Deepak' through a letter sent by post. 'Deepak' accepts the proposal through a letter sent by post. Aman may revoke his proposal-

- (a) दीपक द्वारा अपने प्रतिग्रहण का पत्र डाक में डाले जाने से पूर्व किसी भी समय / At any time before Deepak post his letter of acceptance
- (b) दीपक द्वारा अपने प्रतिग्रहण का पत्र डाक में डाले जाने के क्षण / At The moment Deepak posts his letter of acceptance
- (c) (a) एवं (b) दोनों / (a) and (b) both
- (d) दीपक द्वारा अपने प्रतिग्रहण का पत्र डाक में डाले जाने के पश्चात् / After Deepak has posted his letter of acceptance

**32) प्रस्थापना का प्रतिसंहरण हो जाता है- / A proposal becomes revocable-**

- (a) प्रतिग्रहण की किसी पुरोभाव्य शर्त को पूरा करने में प्रतिगृहीता की असफलता से / Failure of the acceptor to fulfill any condition precedent to the acceptance
- (b) प्रस्थापक की मृत्यु या उन्मत्तता से, यदि उसकी मृत्यु या उन्मत्तता का तथ्य प्रतिगृहीता के ज्ञान में प्रतिग्रहण से पूर्व नहीं आया हो। / By the death or insanity of the proposer, if the fact of his death or insanity had not come to the knowledge of the acceptor before the acceptance.
- (c) प्रस्थापक द्वारा दूसरे पक्षकार को प्रतिसंहरण की सूचना से संसूचित नहीं किए जाने से / Non-communication of notice of revocation by the proposer to the other party
- (d) उपरोक्त में से कोई नहीं / None of the above

**33) भारतीय संविदा अधिनियम, की निम्नलिखित धाराओं में से किसमें इस सिद्धान्त का प्रावधान है कि प्रतिग्रहण (स्वीकृति) के आत्यान्तिक एवं शर्तरहित होना ही चाहिए- / In which of the following sections of the Indian Contract Act, the principle that acceptance must be absolute and unconditional-**

- (a) धारा-7 (1) / Section-7 (1)

- (b) धारा-4 / Section-4
- (c) धारा-8 / Section-8
- (d) धारा-9 / Section-9

**34)संविदा के निम्नलिखित आवश्यक तत्वों में से किसे भारतीय संविदा अधिनियम में स्थान प्राप्त नहीं है- / Which one of the following essential elements of a contract does not find place in the Indian Contract Act-**

- (a) पक्षकारो की सक्षमता / Competence of the parties
- (b) वास्तविक प्रतिफल / Lawful consideration
- (c) अवैध उद्देश्य / Unlawful object
- (d) वैध उद्देश्य / Lawful object

**35)निम्नलिखित में से सत्य कथन है / Which of the following is a true statement?**

- (a) अवयस्क की संविदा शून्यकरणीय है। / The contract of a minor is voidable.
- (b) अवयस्क की कुछ संविदायें शून्य तथा कुछ शून्यकरणीय होती हैं। / Some contracts of a minor are void and some are voidable.
- (c) अवयस्क की संविदा वैद्य होती है। / The contract of a minor is valid.
- (d) अवयस्क द्वारा किया गया करार प्रारम्भ से ही शून्य है। / An agreement of a minor is void abintio

**36)भारतीय संविदा अधिनियम में "सम्मति" शब्द को परिभाषित किया गया है- / The word "consent" has been defined in the Indian Contract Act-**

- (a) धारा-13 / Section-13
- (b) धारा-10 / Section-10
- (c) धारा-7 / Section-7
- (d) धारा-8 / Section-8

Estd. 2008

**37)सम्मति स्वतंत्र तब कही जाती है जब वह प्रभावित न हो / Consent is said to be free when it is not caused by-**

- (a) प्रपीड़न / Coercion

- (b) असम्यक् असर / undue influence
- (c) कपट / Fraud
- (d) उपर्युक्त सभी / all of the above

**38).** एक साहूकार नितिन एक कृषक अनिल को 10,000₹ उधार देता है असम्यक् असर से अनिल को 6 प्रतिशत ब्याज पर 20,000₹ का एक बन्धपत्र निष्पादित करने को उत्प्रेरित करता है न्यायालय - / **A moneylender Nitin lends 10,000 to Anil, an agriculturist. By undue influence, Anil is induced to execute a bond of ₹ 20,000 at 6% interest. Court-**

- (a) बन्धपत्र को अपास्त कर सकेगा / Set aside the bond
- (b) न्यायालय ऐसे ब्याज सहित जो न्यायसंगत प्रतीत हो 10,000₹ के प्रतिसंदाय का आदेश अनिल को दे सकेगा। / The court may order the repayment of ₹ 10,000 to Anil along with such interest as appears to be just.
- (c) उपरोक्त (a) व (b) दोनों / Both (a) and (b) above
- (d) बन्धपत्र को अपास्त नहीं कर सकेगा / will not be able to set aside the bond

**39)** कपट से किया गया करार होता है- / **An agreement made by fraud is-**

- (a) शून्य / Void
- (b) शून्यकरणीय / Voidable
- (c) अवैध / Illegal
- (d) अनैतिक / Unethical

**40)** असम्यक् असर से उत्प्रेरित संविदा को अपास्त करने की शक्ति दी गई है- / **Power to set aside a contract induced by undue influence has been given**

**to-**

- (a) धारा-16 क / Section-16A
- (b) धारा-17 क / Section-17A
- (c) धारा-19 क / Section-19A
- (d) धारा-20 क / Section-20A

Estd. 2008

**41)निम्नलिखित में से कौन-सा सम्बन्ध असम्यक् असर के अंतर्गत नहीं आता है- / Which of the following does not come under undue influence?**

- (a) डॉक्टर एवं मरीज का / Doctor and patient
- (b) ग्राहक एवं दुकानदार / Customers and shopkeepers
- (c) वकील एवं मुक्कील / Lawyer and client
- (d) मालिक एवं नौकर / Master and servant

**42)विजय से अमुक घोड़ा खरीदने का करार अजय करता है यह पता चलता है कि वह घोड़ा सौदे के समय मर चुका था यद्यपि दोनो में से किसी भी पक्षकार को इस तथ्य की जानकारी नहीं थी। / Ajay enters into an agreement to buy a certain horse from Vijay. It is found that the horse was dead at the time of the deal, though neither of the parties was aware of this fact.?**

- (a) यह करार शून्यकरणीय है। / This agreement is voidable.
- (b) यह करार शून्य है। / This agreement is void.
- (c) यह एक वैध संविदा है। / It is a legal contract.
- (d) आंशिक शून्यकरणीय / Partly voidable

**43)भारत में प्रवृत्त विधि के बारे में किसी भूल के कारण की गई संविदा होगी / A contract made by reason of a mistake as to the law in force in India shall be-**

- (a) शून्यकरणीय / Voidable
- (b) शून्य / Void
- (c) वैध / Legal
- (d) अवैध / Illegal

**44)अपटोन रूरल डिस्ट्रेक्ट कैंसिल बनाम पावेल का वाद सम्बन्धित है- / The case of Upton Rural District Council vs. Powell is related to-**

- (a) एक पक्षकार की तथ्य की भूल से संविदा शून्यकरणीय नहीं होती है। / A contract is not voidable by mistake of fact of a party.
- (b) एक पक्षकार की तथ्य की भूल से संविदा शून्यकरणीय होती है। / A contract is voidable by mistake of fact of a party.

(c) एक पक्षकार की तथ्य की भूल से संविदा अवैध होती है। / A contract is voidable by a mistake of fact on the part of one of the parties.

(d) दोनों पक्षकारों की तथ्य की भूल से संविदा अवैध होती है। / A contract is voidable by a mistake of fact on the part of both the parties.

**45)"कौन से प्रतिफल और उद्देश्य विधिपूर्ण है और कौन से नहीं" के सम्बन्ध में प्रावधान किया गया है। / Provision has been made regarding "which consideration and object are lawful and which are not".**

(a) धारा-22 / Section-22

(b) धारा-20 / Section-20

(c) धारा-23 / Section-23

(d) धारा-26 / Section-26

**46)अमन अपना गृह पाँच लाख रूपए में सुमन को बेचने का करार करता है- / Aman makes an agreement to sell his house to Suman for five lakh rupees-**

(a) यहाँ पाँच लाख रूपए देने का सुमन का वचन अमन के वचन के लिए प्रतिफल है। / Here Suman's promise to give five lakh rupees is the reward for Aman's promise.

(b) गृह बेचने का अमन का वचन पाँच लाख रूपए देने के सुमन के वचन के लिए प्रतिफल है। / Aman's promise to sell the house is a reward for Suman's promise to give five lakh rupees.

(c) उपरोक्त (a) व (b) दोनों / Both (a) and (b) above

(d) करार शून्य / void agreement

**47)मनीष के लिए लोक सेवा में नियोजन अभिप्राप्त करने का वचन सतीश देता है। सतीश को मनीष एक लाख रूपए देने का वचन देता है- / Satish promises to secure employment for Manish in the civil service. Manish promises to give one lakh rupees to Satish.**

(a) करार शून्यकरणीय है क्योंकि उसके लिए प्रतिफल विधिविरुद्ध है। / The agreement is voidable because the consideration for it is unlawful.

- (b) करार शून्य है क्योंकि उसके लिए प्रतिफल वैध है। / The agreement is void because the consideration for it is valid.
- (c) करार शून्य है क्योंकि उसके लिए प्रतिफल विधिविरुद्ध है। / The agreement is void because the consideration for it is unlawful.
- (d) उपरोक्त में से कोई नहीं / None of the above

**48) यदि एक या अधिक उद्देश्यों के लिए किसी एकल प्रतिफल का कोई भाग विधिविरुद्ध हो तो / If any part of a single consideration for one or more purposes is unlawful-**

- (a) करार शून्य है / The agreement is void
- (b) करार शून्यकरणीय है / The agreement is voidable
- (c) करार विधिमान्य है / The agreement is valid
- (d) मान्य संविदा / valid contract

**49). रमेश के 10,000₹ नरेश द्वारा देय है किन्तु वह ऋण परिसीमा अधिनियम द्वारा वारित है। नरेश उस ऋण के मद्दे रमेश को 5,000₹ देने का लिखित वचन हस्ताक्षरित करता है- / ₹10,000 to Ramesh is payable by Naresh but that debt is barred by the Limitation Act. Naresh signs a written undertaking to pay Rs 5,000 to Ramesh on account of that loan.**

- (a) यह शून्यकरणीय करार है / It is a voidable agreement
- (b) यह संविदा है / This is a contract
- (c) यह शून्य करार है / This is a void agreement
- (d) अवैध संविदा / illegal contract

**50) प्रतिफल के बिना किये गये करार होगा / An agreement made without consideration shall be-**

- (a) शून्य / Void
- (b) शून्यकरणीय / Voidable
- (c) वैध / Valid
- (d) संविदा / contract

Estd. 2008

**51)ऐसा हर करार जो अप्राप्तवय से भिन्न किसी व्यक्ति के विवाह के अवरोधार्थ हो- / Every agreement to prevent the marriage of any person other than a minor-**

- (a) शून्य है / Is void
- (b) वैध है / Is valid
- (c) शून्यकरणीय है / Is voidable
- (d) संविदा / contract

**52)भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 27 निम्नलिखित में से किस संबंध में व्यापार को बाधित करने वाला करार वैध है- / Section 27 of the Indian Contract Act, 1872 in which of the following relation an agreement in restraint of trade is valid-**

- (a) आपसी समायोजन / Mutual adjustment
- (b) व्यावसायिक आकस्मिकता / Business contingency
- (c) गुडविल का विक्रय / Sale of goodwill
- (d) करार अवैध है / agreement is Unlawful

**53)भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की कौन सी धारा विधिक कार्यवाही में बाधा डाला वाले करार से संबंधित है? / Which Section of the Indian Contract Act 1872, deals with agreements in restraint of legal proceedings?**

- (a) धारा 27 / Section 27
- (b) धारा 28 / Section 28
- (c) धारा 23 / Section 23
- (d) धारा 29 / Section 29

**54)सुरेश को अजय "मेरा सफेद घोड़ा पचास हजार रूपये या एक लाख रूपए के लिए" बेचने का करार करता है। यह दर्शित करने के लिए कुछ नहीं है कि इन दो कीमतों में से कौन सी दी जानी है। / Ajay makes an agreement to sell "my white horse to Suresh for fifty thousand rupees or one lakh rupees". There is nothing to indicate which of these two prices is to be given.**

- (a) करार शून्यकरणीय है / The agreement is voidable
- (b) करार शून्य है / The agreement is void
- (c) संविदा वैध है / The contract is valid
- (d) उपरोक्त में से कोई नहीं / None of the above

**55) धारा 30 के अंतर्गत घुड़दौड़ के संबंध में एक करार है / An agreement connection with horse racing under Section 30 is**

- (a) शून्यकरणीय / voidable
- (b) अवैध / Unlawful
- (c) शून्य / void
- (d) वैध / valid

**56) राजीव से संजीव संविदा करता है कि यदि संजीव की दुकान जल जाए तो वह संजीव को एक लाख रूपए देगा- / Sanjeev makes a contract with Rajeev that if Sanjeev's shop burns down, he will give one lakh rupees to Sanjeev.**

- (a) यह समाश्रित संविदा है / It is a contingent contract
- (b) यह शून्यकरणीय करार है / It is a voidable agreement
- (c) यह शून्य करार है / This is a void agreement
- (d) उपरोक्त में से कोई नहीं / None of the above

**57) अभिषेक यह संविदा करता है जब अनिता से अजय विवाह कर लेगा तो अजय को अभिषेक नियत धनराशि देगा, अजय से विवाह हुए बिना अनिता मर जाती है- / Abhishek makes a contract that when Ajay marries Anita, then Abhishek will pay a fixed amount to Ajay, Anita dies without marrying Ajay.**

- (a) यह संविदा अवैध हो जाती है / this contract becomes
- (b) यह संविदा शून्य हो जाती है / this contract becomes void
- (c) यह संविदा शून्यकरणीय हो जाती है / This contract becomes voidable
- (d) यह संविदा वैध हो जाती है / this contract becomes legal



**58)उन समाश्रित संविदाओ का प्रवर्तन, जो किसी अनिश्चित भावी घटना के घटित न होने पर किसी बात को करने या न करने के लिए हो, तब कराया जा सकता है जब - / Contingent contracts which provide for something to be done or not to be done if an uncertain future event does not happen, can be enforced when-**

- (a) उस घटना का घटित होना असम्भव हो जाए उससे पूर्व नहीं / not before it becomes impossible for that event to happen
- (b) उस घटना का घटित होना असम्भव हो जाने से पूर्व / before it becomes impossible for that event to happen
- (c) उस घटना का घटित होना सम्भव हो जाए तब / It is possible for that ev to happen
- (d) उपरोक्त (a) व (b) दोनों / Both (a) and (b) above

**59)समाश्रित संविदाए जो किसी विनिर्दिष्ट अनिश्चित घटना के किसी नियत समय के भीतर घटित होने पर किसी बात को करने या न करने के लिए हो शून्य हो जाती है- / Contingent contracts to do or not to do a thing on the happening within a specified time of a specified uncertain event become void-**

- (a) यदि उस अनिश्चित नियत समय के अवसान पर ऐसी घटना न घटित हुई हो / If at the expiration of that indefinite fixed time such event has not happened
- (b) यदि उस नियत समय से पूर्व घटना असम्भव हो जाए / If the event becomes impossible before that appointed time
- (c) उपरोक्त (a) व (b) दोनों / Both (a) and (b) above
- (d) उपरोक्त में से कोई नहीं / None of the above

**60)प्रदीप करार करता है कि यदि प्रदीप की पुत्री मनीषा से कपिल विवाह कर ले तो वह कपिल को एक लाख रूपए देगा, करार के समय मनीषा मर चुकी है- / Pradeep makes an agreement that if Kapil marries Pradeep's daughter Manisha, he will give one lakh rupees to Kapil, at the time of agreement Manisha is dead-**

- (a) करार शून्यकरणीय है / The agreement is voidable

- (b) करार शून्य है / The agreement is void
- (c) संविदा है / Contract
- (d) करार वैध है / The agreement is valid

**61)**जब किसी संविदा के एक पक्षकार ने अपने वचन का पूर्णतः पालन करने से इन्कार कर दिया हो तब वचनगृहीता संविदा का अन्त कर सकेगा यदि / **When a party to a contract has refused to perform his promise in full, the promisee may put an end to the contract if-**

- (a) वचनगृहीता ने संविदा चालू रखने की शब्दों द्वारा अपनी उपमति संज्ञापित न कर दी हो / the promisor has not by words signified his intention to continue the contract
- (b) वचनगृहीता ने संविदा चालू रखने की आचरण द्वारा अपनी उपमति संज्ञापित न कर दी हो / the promisor has not, by conduct, signified his intention to continue the contract
- (c) उपरोक्त (a) व (b) दोनों / Both (a) and (b) above
- (d) उपरोक्त में से कोई नहीं / none of the above

**62)**यदि मामले की प्रकृति से यह प्रतीत हो कि संविदा के पक्षकारों का आशय था कि उसमें अन्तर्विष्ट किसी वचन का पालन स्वयं वचनदाता द्वारा किया जाना चाहिए तब ऐसे वचन का पालन किया जा सकेगा / **If it appears from the nature of the case that the parties to the contract intended that any promise contained therein should be performed by the promisor himself, such promise may be performed-**

- (a) स्वयं वचनदाता के द्वारा / By the promisor himself
- (b) वचनदाता के प्रतिनिधियों के द्वारा / By representatives of the promisor
- (c) वचनदाता के प्रतिनिधि उसका पालन करने के लिए किसी सक्षम व्यक्ति को नियोजित कर सकेगे / The representative of the promisor may employ any competent person to perform it.
- (d) उपरोक्त सभी / All of the above

**63).** जहां संविदा के अनुसार वचनदाता को अपने वचन का पालन वचनगृहीता द्वारा आवेदन किए जाने के बिना करना हो और वचन के पालन के लिए कोई समय विनिर्दिष्ट नहीं है वहां वचनबन्ध का पालन किया जाएगा- / **Where the**

**contract requires the promisor to perform his promise without application by the promisee, and no time is specified for the performance of the promise, the promise shall be performed-**

- (a) तीन वर्ष के भीतर / Within three years
- (b) दो वर्ष के भीतर / Within two years
- (c) युक्तियुक्त समय के भीतर / Within a reasonable time
- (d) उपरोक्त में से कोई नहीं / None of the above

**64)राजेश वचन देता है कि वह 10 दिसम्बर 2022 को नितेश के भण्डागार में माल परिदत्त करेगा। उस दिन राजेश माल को नितेश के भण्डागार में लाता है किन्तु उसके बन्द होने के प्रायिक घंटे के पश्चात् और माल नहीं लिया जाता / Rajesh promises that he will deliver the goods to Nitesh's warehouse on 10th December, 2022. On that day, Rajesh brings the goods to Nitesh's warehouse, but no more goods are taken after the usual hour of its closure.**

- (a) राजेश ने अपने वचन का पालन कर दिया है / Rajesh has kept his promise
- (b) राजेश ने अपने वचन का पालन नहीं किया है / Rajesh has not kept his promise
- (c) नितेश माल को किसी भी समय स्वीकार करने के लिए आबद्ध है / Nitesh bound to accept the goods at any time
- (d) उपरोक्त में से कोई नहीं / None of the above

**65)किसी भी वचन का पालन किया जायेगा- / Any promise will be followed ?**

- (a) उस प्रकार से जिसे वचनगृहीता विहित करे / In such manner as the promisee may prescribe
- (b) उस समय पर जिसे वचनगृहीता मंजूर करे / At such time as the promisee may agree
- (c) उपरोक्त (a) व (b) दोनों / Both (a) and (b) above
- (d) उपरोक्त में से कोई नहीं / None of the above

**66)**"वचनदाता पालन करने के लिए आबद्ध नहीं है जब तक कि व्यक्तिकारी वचनगृहीता पालन के लिए तैयार और रजामन्द न हो" यह प्रावधान सम्बन्धित है- / **"The promisor is not bound to perform unless the promisee in default has agreed to perform." This provision is related to-**

- (a) धारा-50 / Section-50
- (b) धारा-51 / Section-51
- (c) धारा-52 / Section-52
- (d) धारा-54 / Section-54

**67).** मनीष और सुरेश संविदा करते हैं कि मनीष दस लाख रूपए की कीमत पर सुरेश के लिए एक गृह बनाएगा। मनीष को गृह बनाने के वचन का पालन करना होगा / **Manish and Suresh contract that Manish will build a house for Suresh at a cost of ten lakh rupees. Manish will have to fulfill his promise of build a house.**

- (a) सुरेश द्वारा गृह के लिये संदाय के वचन के पालन के बाद। / After Suresh has fulfilled his promise to pay for the house.
- (b) सुरेश द्वारा गृह के लिये संदाय के वचन के पालन के पहले। / Before the performance of Suresh's promise to pay for the house.
- (c) सुरेश द्वारा गृह के लिये संदाय के वचन का पालन किया जाना आवश्यक नहीं है। it is not necessary for Suresh to fulfill his promise to pay for house
- (d) उपरोक्त में से कोई नहीं/None of the above

**68)**जब किसी संविदा में व्यक्तिकारी वचन अन्तर्विष्ट हो और संविदा का एक पक्षकार, दूसरे पक्षकार को उसके वचन का पालन करने से निवारित करे तब वह संविदा इस प्रकार निवारित किए गए पक्षकार के विकल्प पर हो जाती है / **When a contract contains reciprocal promises, and one party to the contract prevents the other party from performing his promise, the contract becomes at the option of the party so prevented-**

- (a) शून्य / Void
- (b) शून्यकरणीय / Voidable
- (c) अवैध / Illegal
- (d) उपरोक्त में से कोई नहीं / None of the above

**69)** कपिल को राकेश वाणिज्या की सौ गांठें बेचने का वचन देता है जिनका परिदान अगले दिन किया जाने वाला है और उनके लिए एक मास के भीतर संदाय करने का वचन राकेश को कपिल देता है। राकेश अपने वचन के अनुसार परिदान नहीं करता। यहाँ - / **Rakesh promises to sell Kapil a hundred bales of goods which are to be delivered the next day and Kapil promises to pay for them within a month. Rakesh does not deliver as per his promise. here-**

- (a) संदाय करने के कपिल के वचन का पालन किया जाना आवश्यक नहीं है / Kapil's promise to pay need not be followed
- (b) राकेश को प्रतिकर देना होगा। / Rakesh has to pay compensation.
- (c) उपरोक्त (a) व (b) दोनों / Both (a) and (b) above
- (d) उपरोक्त में से कोई नहीं / None of the above

**70)** जादू से गुप्तनिधि का पता चलाने का राजेश से सुरेश करार करता है- / **Suresh makes an agreement with Rajesh to find out the hidden treasure by magic ?**

- (a) करार वैध है / The agreement is valid
- (b) करार शून्यकरणीय है / The agreement is voidable
- (c) करार शून्य है / The agreement is void
- (d) उपरोक्त में से कोई नहीं / None of the above

**राजस्थली**

**Estd. 2008**

**Answer key**

1-c  
2-b  
3-d  
4-a  
5-d  
6-d  
7-b  
8-c  
9-a  
10-d  
11-b  
12-c  
13-d  
14-b  
15-b  
16-c  
17-b  
18-b  
19-b  
20-d  
21-d  
22-b  
23-a  
24-a  
25-a  
26-b  
27-c  
28-d  
29-d  
30-c  
31-c



राजस्थली

Estd. 2008

32-a  
33-a  
34-c  
35-d  
36-a  
37-d  
38-c  
39-b  
40-c  
41-b  
42-b  
43-c  
44-a  
45-c  
46-c  
47-c  
48-a  
49-b  
50-a  
51-a  
52-c  
53-b  
54-b  
55-c  
56-a  
57-b  
58-a  
59-c  
60-b  
61-c  
62-a  
63-c



राजस्थली

Estd. 2008

64-b  
65-c  
66-b  
67-b  
68-b  
69-c  
70-c



Estd. 2008